



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 23 राँची, गुरुवार,

10 जनवरी, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2018

संख्या. – 06 A/न०वि०/Development Authority-46/2015-...6060... झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम -1981 (अंगीकृत) यथा संशोधित-2006 की धारा-8 की उपधारा-2 में प्रावधान है कि राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, क्षेत्र और विकास क्षेत्र की सीमाएँ परिवर्तित कर सकेगी, ताकि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र उसमें शामिल या उससे अलग किया जा सके।

2. राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 (अंगीकृत) यथा संशोधित-2006 के अध्याय-2 की कंडिका-8 (2) के तहत निम्नांकित भू-भाग को क्षेत्र (Region) तथा विकास क्षेत्र (Development Area) के रूप में अधिसूचित किया जाता है:-

2.1 क्षेत्र (Region):

अधिसूचित स्थानीय शहरी निकाय क्षेत्र को छोड़कर, निम्नांकित जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र:

क्र०	जिला का नाम
1	राँची
2	गुमला
3	सिमडेगा
4	लोहरदगा
5	खूँटी

2.2 विकास क्षेत्र (Development Area):

2.2.1 उपर्युक्त कंडिका 2.1 में वर्णित जिलों में अधिसूचित शहरी निकाय क्षेत्र की सीमा से निम्नांकित परिधि के अन्तर्गत अवस्थित क्षेत्र:

क्र०	निकाय के प्रकार	निकाय क्षेत्र की सीमा के बाहर के क्षेत्र
1	नगर पंचायत	04 कि०मी० की परिधि में
2	नगर परिषद्/नगर निगम (राँची नगर निगम को छोड़कर)	05 कि०मी० की परिधि में

किन्तु राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के विकास क्षेत्र, जो अधिसूचना संख्या-811, दिनांक-02.03.12 के द्वारा अधिसूचित है, जिसमें कुल 354 ग्राम/मौजा सम्मिलित है, में से करी अंचल एवं खूँटी अंचल के ग्राम/मौजा को छोड़कर।

2.2.2 उपर्युक्त कंडिका 2.1 में वर्णित जिलों में जनगणना-2011 में चिन्हित सभी Census Towns के क्षेत्र की सीमा से 03 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत अवस्थित क्षेत्र।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।
